



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1946 (श10)

(सं0 पटना 946) पटना, बुधवार, 25 सितम्बर 2024

सं0सं0-पि0व0/3/क्षे0स्था0-20-12/2023-1577
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

23 सितम्बर 2024

विषय:- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के सुचारु रूप से संचालन हेतु छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों के सृजन एवं सम्भावित वार्षिक व्यय रू0 4,39,74,840/- (रू0 चार करोड़ उनचालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चालीस) मात्र की स्वीकृति।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को समाज के मुख्य धारा में लाने एवं इन वर्गों में शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को उच्च तकनीकी के साथ शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं माहौल उपलब्ध कराने के निमित्त 38 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी छात्रावासों में आवासीय छात्र/छात्राओं को सुरक्षित शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से छात्र/छात्राओं के मध्य कमरे का आवंटन/कमरों का प्रबंधन, उन्हें मूलभूत सुविधाएँ ससमय उपलब्ध कराने, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने, छात्रावास का रख-रखाव, सुरक्षा, छात्रावास का संधारण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रत्येक छात्रावास में एक-एक छात्रावास प्रबंधक (पे लेवल :-4) के पद के सृजन किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

2. वर्तमान में 38 जिलों में 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं 24 जिलों में 27 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन निर्मित है, जिसमें 23 छात्रावास संचालित है। 14 जिलों में 17 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जो निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 8 जिलों में अवस्थित विभिन्न 9 विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन सभी छात्रावासों में 01-01 छात्रावास प्रबंधक अर्थात् कुल 91 पदों का सृजन किये जाने पर विचार किया गया।

3. छात्रावासों में दैनिक रूप से भोजन की व्यवस्था, निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति, छात्रावास की दैनिक रूप से सफाई की जाती है। इन सबों का दैनिक रूप से पर्यवेक्षण का कार्य छात्रावास प्रबंधक के द्वारा किया जाना है। छात्रों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान एवं छात्रावास खाद्यान्न योजना के संचालन के पर्यवेक्षण छात्रावास प्रबंधक द्वारा किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास प्रबंधक की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि छात्रावास को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।

4. विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में "छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग" के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु "छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग नियमावली, 2023" विभागीय अधिसूचना सं0-2526, दिनांक-27.11.2023 द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के सुचारु रूप से संचालन हेतु छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों के सृजन (परिशिष्ट-1 एवं 2) एवं सम्भावित वार्षिक व्यय रू0 4,39,74,840/- (रू0 चार करोड़ उनचालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चालीस) मात्र (परिशिष्ट-3) की स्वीकृति दी जाती है।

6. उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप व्यय का वहन व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत मांग संख्या-11 के अंतर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय, विपत्र कोड संख्या-11-2225030010003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. प्रस्ताव पर दिनांक-10.09.2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-7 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इनकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सचिव।

परिशिष्ट-1

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की जिलावार सूची एवं प्रस्तावित छात्रावास प्रबंधक के सृजित किये जाने वाले पदों की विवरणी :-

क्र० सं०	जिला का नाम	छात्रावास का पता	छात्रावास प्रबंधक की प्रस्तावित पदों की सं०
1	2	3	4
1	अररिया	अररिया आर०एस०, अररिया	1
2	अरवल	चिड़ियाटांड, अरवल	1
3	औरंगाबाद	कर्मा भगवान, औरंगाबाद	1
4	बाँका	लक्ष्मीपुर, बाँका	1
5	बेगुसराय	श्री श्री 108 एम०आर०जे०डी० इण्टर कॉलेज, बेगुसराय	1
6	भागलपुर	टी०एन०बी० कॉलेज के दक्षिण छोर, भागलपुर	1
7	भोजपुर	एस०एस० कॉलेज, भोजपुर	1
8	बक्सर	कला भवन बक्सर के सामने	1
9	दरभंगा	सुन्दरपुर बेला, दरभंगा सदर	1
10	पूर्वी चम्पारण	लुआठाहॉ, पूर्वी चम्पारण	1
11	गया	कपिल धारा, माड़नपुर, गया	1
12	गोपालगंज	सरैया, गोपालगंज	1
13	जमुई	इन्दपै, जमुई	1
14	जहानाबाद	गांधी स्मारक इंटर स्तरीय विद्यालय के कैम्पस में, मलहचक, एरोड्राम रोड, जहानाबाद	1
15	कैमूर	सुअरा नदी के पश्चिमी तट पर, भभुआ	1
16	कटिहार	सुर तुलसी कॉलेज, कटिहार	1
17	खगड़िया	मौजा-रहीमपुर, अंचल-खगड़िया, खगड़िया	1
18	किशनगंज	फुलवारी, माड़वारी कॉलेज के पीछे, किशनगंज	1
19	लखीसराय	मौजा-खगौर, लखीसराय	1
20	मधेपुरा	मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा	1
21	मधुबनी	S.B.I मेन ब्रांच के बगल में, मधुबनी	1
22	मुंगेर	हाजी सुजान, मुंगेर	1
23	मुजफ्फरपुर	सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर	1
24	नालन्दा	राणा विगहा (सिपाही मोड़), दीप नगर थाना के पीछे, बिहारशरीफ (नालन्दा)	1
25	नवादा	बुधौल, बस स्टैण्ड के बगल में	1
26	पटना	लोहानीपुर, पटना	1
27	पूर्णियाँ	बी०बी० एम० उच्च विद्यालय, भट्टा बाजार, पूर्णियाँ	1
28	रोहतास	महिला कॉलेज, रोहतास	1
29	सहरसा	पटुआहा, सहरसा	1
30	समस्तीपुर	सुन्दर उच्च विद्यालय के निकट, समस्तीपुर (मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के पास)	1

क्र० सं०	जिला का नाम	छात्रावास का पता	छात्रावास प्रबंधक की प्रस्तावित पदों की सं०
1	2	3	4
31	सारण	विश्वनुपुरा, छपरा	1
32	शेखपुरा	मखदुमपुर, अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा के निकट, शेखपुरा	1
33	शिवहर	श्री नबाव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवहर के प्रांगन में	1
34	सीतामढ़ी	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के बगल में	1
35	सीवान	मौजा—जसौली खर्ग, अंचल— पंचरुखी, सीवान	1
36	सुपौल	एस0डी0एस0के0बी0 +2 उच्च विद्यालय, हरदी, सुपौल	1
37	वैशाली	अक्षयवट महाविद्यालय, महुआ, वैशाली	1
38	प० चम्पारण	रामलखन सिंह यादव कॉलेज, बेतिया के कैम्पस में	1
कुल योग—			38

मनोज कुमार,
सचिव।

परिशिष्ट-2
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की जिलावार सूची :-

क्र० सं०	जिला का नाम	छात्रावास का पता	छात्रावास प्रबंधक की प्रस्तावित पदों की सं०
1	2	3	4
1	अररिया	बसंतपुर, अररिया	1
2	अरवल	मौजा-रामपुर बैना, अरवल	1
3	औरंगाबाद	राजकीय अम्बेदकर कल्याण छात्रावास के कैम्पस में पश्चिम साईड	1
4	बाँका	आर०एम०के० इण्टर स्तरीय उच्च विद्यालय परिसर, बाबू टोला, बाँका	1
5	बेगुसराय	बी०पी० इण्टर कॉलेज परिसर, काली स्थान के पास, बेगुसराय	1
6	भागलपुर	टी०एन०बी० कॉलेज परिसर, भागलपुर	1
7		बालिका कल्याण छात्रावास, विश्वविद्यालय कैम्पस, भागलपुर	1
8	भोजपुर	वीर कुँवर सिंह वि०वि० परिसर, जीरो माईल, आरा	1
9	बक्सर	मौजा- पुलिस लाईन, बक्सर	1
10	दरभंगा	बी०एम०सी० छात्रावास, मिर्जा खाँ तालाव, दरभंगा	1
11		राज +2 उच्च विद्यालय परिसर, हसनचौक, लालबाग, दरभंगा	1
12	पूर्वी चम्पारण	एम०एम० कॉलेज परिसर, अम्बिका नगर, मोतिहारी	1
13	गया	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में	1
14	गोपालगंज	भी०एम० उच्च विद्यालय, मौजा-गोपालगंज, गोपालगंज	1
15		अरना, गोपालगंज	1
16	जमुई	के०के०एम० कॉलेज परिसर, जमुई	1
17	जहानाबाद	एस०एस० कॉलेज परिसर, धनगावाँ, जहानाबाद	1
18	कैमूर	महाराणा प्रताप कॉलेज परिसर, मोहनियाँ, कैमूर	1
19	कटिहार	के०बी०झा० कॉलेज परिसर, कटिहार	1
20		डी०एस० कॉलेज परिसर, कटिहार	1
21	खगड़िया	कोशी कॉलेज परिसर, खगड़िया	1
22	किशनगंज	+2 उच्च विद्यालय के पीछे, डे-मार्केट, किशनगंज	1
23	लखीसराय	मौजा-खगौर, अंचल-लखीसराय, लखीसराय	1
24	मधेपुरा	शिवनन्दन प्रसाद मंडल उच्च विद्यालय, मधेपुरा के परिसर में वार्ड न०-20, नगर परिषद, मधेपुरा	1
25	मधुबनी	मौजा-परिहारपुर, मधुबनी	1
26	मुंगेर	आर०डी० एण्ड डी०जे० कॉलेज परिसर, मुंगेर	1
27	मुजफ्फरपुर	होम फोर होमलेस कैम्पस, खबड़ा रोड, मुजफ्फरपुर	1
28	नालन्दा	मौजा-देवी सराय, नालन्दा	1
29	नवादा	बुधौल, नवादा	1
30		रजौली, नवादा	1
31	पटना	अब्दुल कयूम अंसारी छात्रावास, रानीघाट, पटना	1
32	पूर्णियाँ	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के परिसर में, सदर पूर्णियाँ, पूर्णियाँ	1

क्र० सं०	जिला का नाम	छात्रावास का पता	छात्रावास प्रबंधक की प्रस्तावित पदों की सं०
1	2	3	4
33	रोहतास	मोकर, रोहतास	1
34	सहरसा	मौजा— सहरसा	1
35	समस्तीपुर	यू०आर०कॉलेज परिसर, रोसड़ा, समस्तीपुर	1
36	सारण	जे०पी० विश्वविद्यालय परिसर स्थित।	1
37	शेखपुरा	आर०डी०कॉलेज परिसर, शेखपुरा	1
38	शिवहर	मौजा—कुशहर, शिवहर	1
39	सीतामढ़ी	अंचल—डुमरा, मौजा—मुरादपुर, सीतामढ़ी	1
40	सीवान	कनवरा मीठा मील, सीवान	1
41	सुपौल	बी०एस०एस० कॉलेज परिसर, किशनपुर रोड, सुपौल	1
42	वैशाली	देवचन्द महाविद्यालय परिसर, महुआ रोड, वैशाली	1
43		मौजा—यूसूफपुर, वैशाली	1
44	प० चम्पारण	दुर्गा विद्या मंदिर के निकट, बेतिया	1
45	पटना	पटना विश्वविद्यालय, पटना	1
46		पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना	1
47	गया	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	1
48	दरभंगा	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	1
49	मुजफ्फरपुर	डॉ० बी०आर० अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1
50	भागलपुर	तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	1
51	मधेपुरा	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	1
52	मुंगेर	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	1
53	सारण	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	1
		कुल योग:—	53

मनोज कुमार,
सचिव।

परिशिष्ट-3

स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत छात्रावास प्रबंध के सृजित पदों पर अनुमानित संभावित वार्षिक व्यय विवरणी :-

क्र० सं०	पदनाम	सृजित होने वाले पदों की संख्या	पे लेवल	मूलवेतन	जी०या० भत्ता DA@46%	चिकित्सा भत्ता
1	छात्रावास प्रबंधक	91	4	25500	11730	1000

मकान किराया भत्ता HRA @8%	परिवहन भत्ता	अन्य भत्ता	एक माह का वेतन	वार्षिक वेतन	वार्षिक वेतन x पदों की संख्या	अभ्युक्ति
2040	—		40270	483240	43974840	

कुल संभावित व्यय— रू० 4,39,74,840 /—

(रू० चार करोड़ उनचालीस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चालीस मात्र)

मनोज कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 946+571+1500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>